<u>Integra Capital Limited</u>

(Formerly known as Integra Capital Management Limited)
32 Regal Building Sansad Marg (Parliament Street) New Delhi – 110001

Email id.; Integraprofit@gmail.com, Tel. No. 011-23361532

Website: www.integraprofit.com CIN L74899DL1990PLC040042

Date: 11th November, 2023

To, The Manager, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001

Company Symbol: INTCAPL

Script Code: 531314

<u>Subject: Newspaper advertisement for Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2023.</u>

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 and 47(3) read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisement published on 10th November, 2023, in "Financial Express" in English language Newspaper and published on 11th November, 2023 in "Jansatta" in Hindi (Regional) language Newspaper regarding Standalone Audited Financial Results of the Company for the quarter and Half year ended 30th September, 2023 which were considered, approved and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on 09th November, 2023.

Further, in terms of Regulation 46 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the aforesaid financial results are also uploaded on the website of the Company (www.integraprofit.com).

You are requested to kindly take the above information on your record.

For and on behalf of Integra Capital Limited (Formerly known as Integra Capital Management Limited)

TARUN Digitally signed by TARUN VOHRA

VOHRA Date: 2023.11.11
12:06:45 + 05'30'

Tarun Vohra Managing Director DIN: 00030470

FINANCIAL EXPRESS

INTEGRA CAPITAL LIMITED (FORMERLY KNOWN AS INTEGRA CAPITAL MANAGEMENT LIMITED) CIN No. L74899DL1990PLC040042 | GST TIN-07AAACI0828F2ZX Regd. Office: 32, Regal Building, Sansad Marg, New Delhi-110001

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEARLY ENDED 30TH SEPTEMBER,2023 (Amount In Rs. Lakhs) Quarter Ended | Quarter Ended Year Ended **Particulars** 30.09.2023 30.09.2022 31.03.2023 No. (unaudited) (unaudited) (Audited) Total Income from Operations (Net) 22.07 25.93 10.16 19.07 Net Profit from Ordinary Activities after Tax 22.10 (30.59)18.33 (30.59)Net Profit for the Period after Tax (after Exceptional Items) 22.10 Paid up Equity Share Capital (Face Value per Share is Rs.10) 470.28 470.28 470.28 Reserves excluding Revaluation reserve (102.22)Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each (Not Annualized)) (a) Basic and Diluted EPS (before exceptional items (In Rs.)) 0.39 0.47 (0.65)0.39 (b) Basic and Diluted EPS (After exceptional items (In Rs.)) 0.47 (0.65)The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the stock exchange under regulation 33 of (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange Website, www.bse.india.com and on the company's website.

> For and on behalf of Integra Capital Limited (Formerly known as Integra Capital Management Limited)

Place: New Delhi Dated: 09.11.2023

> Rajasthan Cylinders and Containers Limited Regd. Office: SP - 825, Road No. 14, V K I Area, Jaipur -302013, TEL.: 91-141-4031771-2 E: info@bajoriagroup.in; W: www.bajoriagroup.in; CIN No: L28101RJ1980PLC002140 Extract of the Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter and half year ended 30th September, 2023.

| S. No. | Particulars | Quarter ended 30.09.2023 | Quarter ended 30.06.2023 | Corresponding Quarter ended 30.09.2022 | Half Year ended 30.09.2023 | Corresponding Half Year ended 30.09.2022 | Previous Year ended 31.03.2023 |
|-----------|--|--------------------------------|---|--|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | (Un-Audited) | (Un-Audited) | (Un-Audited) | (Un-Audited) | (Un-Audited) | (Audited) |
| 1. | Total Income from Operations | 373 | 100 | 410.95 | 0.0 | 793.65 | 931.51 |
| 2. | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, | 200000000 | 000000000000000000000000000000000000000 | 10000000000 | 200-2000-000 | 200000000 | # 1 00000A00000 |
| | Exceptional and/or Extraordinary items) | (22.43) | (18.27) | (89.39) | (40.70) | 199.45 | (146.80) |
| 3. | Net Profit / (Loss) for the period before tax | 58555300 | 1600-00-00-00 | 30355000 | XX29575700 r | 1999-1994 | 000000000 |
| 1000 | (after Exceptional and/or Extraordinary items) | (22.43) | (18.27) | (89,39) | (40.70) | 199.45 | (146.80) |
| 4. | Net Profit / (Loss) for the period after tax | | | | | | |
| | (after, Exceptional and/or Extraordinary items) | 222000000 | Anne se | 400V0000 | 20000000 | -onenecostanti | 1000000000000 |
| | from continuing operation | 6.99 | (1.34) | 17.94 | 5.65 | 312.75 | 30,92 |
| 5. | Profit/(Loss) from discontinued operations | (2.37) | (48.42) | F | (50.79) | \$3 | |
| 6. | Net Profit /(Loss) for the period/year from | 235000000 | 71V35VX00004 | | MB-0-20095 | | |
| | Discontinued operation after tax | (1.71) | (44.77) | | (46.48) | | 357 |
| 7. | Profit/(Loss) for the Period | 5.28 | (46.11) | ¥ | (40.83) | (0) | 57 |
| 8. | Total Comprehensive Income for the period | | 50 (0) | | 2072 - 1009 | | |
| | [Comprising Profit] (Loss) for the period (after | 20222000 | 20770088070 | 2014000000 | 100,000000 | 2042/00/00 | 593538577 |
| | tax) & Other Comprehensive Income (after tax)] | 5.28 | (45.71) | 25.80 | (40.43) | 261.98 | (18.24) |
| 9. | Equity Share Capital | 336.16 | 336.16 | 336.16 | 336,16 | 336.16 | 336.16 |
| 10. | | - Salvayounes | Averagesons | 200 1000 1000 | NEWS 1952VI | NOTICE AND | 1040 50 |
| | surplus as per balance sheet) | 88 | | 23 | 33 | 50 | 1246.50 |
| 11. | (for continuing and discontinued operations) | Di0102.19400 | it orangikoa M | 0.757366.5 | 10000-100- | 1700 | 674 2000 C |
| | 1 Davies 2 Dilutado | 0.16 | (4.27) | 0.62 | (1.21) | 325 | 0.02 |

 The above is an extract of the detailed format of quarterly Un-audited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly Un-audited Financia Results is available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.bajoriagroup.in)) The above Un-audited financial results for the quarter and half year ended 30th September, 2023 were reviewed and recommended by the Audit committee an

thereafter approved by the Board of Directors in its meetings held on O9th November, 2023. These Un-audited Standalone Financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under Section 133 of th Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements

Figures for the previous period have been regrouped / reclassified wherever necessary to conform to current period presentation.

For Rajasthan Cylinders and Containers Ltd Place: Jaipur Avinash Bajoria (Chairman cum Managing Director Date: 09.11.2023

SNS PROPERTIES AND LEASING LIMITED

Regd. Office: D2-11, Budh Vihar, Phase - I, New Delhi CIN: L65922DL1985PLC020853, E-mail: sns.prop.ltd@gmail.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30.09.2023

| Particulars | Quarter ended 30.09.2023 | Quarter ended 30.09.2022 | Half Year ended 30.09.2023 | Half Year ended 30.09.2022 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Total Income | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Net Profit / (Loss) for the period (before tax and / or Exceptional Items) | -1.22 | -0.55 | -2.24 | -1.64 |
| Net Profit /(Loss) for the period after tax and / or after Exceptional Items | -1.22 | -0.55 | -2.24 | -1.64 |
| Total Comprehensive Income for the period | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equity share Capital (Face value of Rs. 10/- each) | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 |
| Earnings Per Share (of Rs.10/- each) | | | | |
| Basic (not annualized) Rs. | -0.12 | -0.06 | -0.22 | -0.16 |
| Diluted (not annualized) Rs. | -0.12 | -0.06 | -0.22 | -0.16 |

1. The above results were placed before and reviewed by the Audit committee at its meeting held on 09th November, 2023 and approved by the Board of Directors at its meeting held on the same date.

2. The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended on September 30, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full Quarterly and Half Yearly Financial Results are available on the website of Metropolitan Stock Exchange Limited (MSEI), www.msei.in and Company's website www.snsind.com.

3. The results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (IND AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder.

For SNS Properties And Leasing Limited

(Mohit Verma) Place: New Delhi

Company Secretary Dated: 09.11.2023

Public Notice For E-Auction Cum Sale (Appendix - IV A) (Rule 8(6

at Plot No.98,Udyog Vihar, Phase-IV,Gurgaon-122015 (Haryana) and Branch Office at: "Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi "under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcemen of Security Interest Act, 2002 (hereinafter "Act"). Whereas the Auhorized Officer ("AO") of IIFL-HFL had taken the possession of the following property/ies pursuant to the notice issued U/S 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospect nos, with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS AS IS WHAT IS BASIS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" for realization of IIFL-HFL's dues, The Sale will be done by the undersigned through e-auc

| Borrower(s)/ Co-Borrower | Demand Notice Date and Amount | Description of the Immovable property/ Secured Asset | Date of Physical Possession | Reserve Price Rs. 10,00,000/- | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| (s) / Guarantor(s) 1. Mr. Sundeep Singh | 24-Sep-2022 Rs. 21,03,782/- (Rupees Twenty One Lakh Three | All That Part And Parcel Of The Property Bearing Second Floor Which Is Bullt Towards Back Side Without Its Roof/Terrace Rights | Total Outstanding as | (Rupees Ten Lakh Only) | | | | | |
| 2. Mrs. Anusuiya | Thousand Seven Hundred Eighty Two Only) | Out Of Built-Up Property Bearing No.Rz-13-Z/4, In Gall No.5, Super Built Up Area Measuring 45 Sq. Yds., Part Of Khasra | On Date 01-Nov-2023 Rs. 25,43,178/- (Rupees Twenty Five | Earnest Money Depos (EMD) | | | | | |
| (Prospect No. IL10042662) | Bid Increase Amount Rs. 20,000/- (Rupees Twenty Thousand Only) | N0.622, Situated In Revenue Estate Of Village Nasirpur, Delhi State Delhi, Colony Known As Kailash Purl, New Delhi-110045 (Built Up Area Admeasuring 405 Sq Ft) | Lakh Forty Three Thousand One Hundred Seventy Eight Only) | Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh Only) | | | | | |
| | of Inspection of property v-2023 1100 hrs -1400 hrs | EMD Last Date 24-Nov-2023 till 5 pm. | Date/ Time of E-Auction 28-Nov-2023 1100 hrs1300 hrs. | | | | | | |
| Mode Of Payment :- | EMD payments are to be ma | lode Of Payment :- EMD payments are to be made vide online mode only. To make payments you have to visit https://www. iiflonehome.com | | | | | | | |

and pay through link available for the property/ Secured Asset only. Note: Payment link for each property/ Secured Asset is different. Ensure you are using link of the property/ Secured Asset you intend to buy

For balance payment, upon successful bid, has to pay through RTGS/NEFT. The accounts details are as follows: a) Name of the Account:- IIFL Home Finance Ltd., b) Name of the Bank:- Standard Chartered Bank, c) Account No:-9902879xxxxx followed by Prospect Number, d) IFSC Code:-

SCBL0036001, e) Bańk Address: Standard Chartered Bank, 90 M.G. Road, Fort, Mumbai-400001. For participating in e-auction, Intending bidders required to register their details with the Service Provider https://www.iiflonehome.com well in

advance and has to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their "Tender FORM" along with the payment details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office. The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed in the last 5 min

utes of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes. The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AO and the balance 75% of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be in the prescribed mode of payment

The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charges, land

and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property. Bidders are advised to go through the website https://www.iiflonehome.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction for detailed

terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceedings. For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider E mail ID: auction.hl@iifl.com, Support Helpline Numbers:@1800 2672 499.

For any query related to Property details, Inspection of Property and Online bid etc. call IIFL HFL toll free no. 1800 2672 499 from 09:30 hrs to 18:00 hrs between Monday to Friday or write to email:- auction.hl@iifl.com Notice is hereby given to above said borrowers to collect the household articles, which were lying in the secured asset at the time of taking physica

possessionwithin 7 days, otherwise IIFL-HFL shall not be responsible for any loss of property under the circumstances. Further the notice is hereby given to the Borrower/s, that in case they fail to collect the above said articles same shall be sold in accordance with Law

10. In case of default in payment at any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled and the amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale. 1. AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and condition of tender/auction without assigning any reason thereof. In case of any dispute in tender/Auction, the decision of AO of IIFL-HFL will be final.

15 DAYS SALE NOTICE UNDER THE RULE 9 SUB RULE (1) OF SARFAESI ACT, 2002 The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date of

Tender/Auction, failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost. Place: - DELHI , Date: 10-11-2023 Sd/- Authorised Officer, IIFL Home Finance Limited.

BHAGAWATI GAS LIMITED

Registered Office: Banwas, Khetri Nagar-333504, Dist.-Jhunjhunu, Rajasthan Corporate Office: S-492/A, Greater Kailash-I, New Delhi-110048 E-Mail ID: bhagwatigases@gmail.com; CIN: U24111RJ1974PLC005789; Website: www.bglgroup.in, Phone No.: 91-11-49120719 EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

| 93 | | Quarter ended | | | Half Yea | Year Ended | |
|------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| SI. No. | Particulars | 30.09.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2023 | 30.09.2022 | 31.03.2023 |
| NO. | V-18040-000-000-00-00-0 | (Un-audited) | (Un-audited) | (Un-audited) | (Un-audited) | (Un-audited) | (Audited) |
| 1, | Total Income from operations | 43.47 | 31,40 | 52.72 | 74.87 | 64.65 | 89.29 |
| 2. | Net Profit/(Loss) for the period (before depreciation, Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 8.48 | 4.54 | 17.28 | 13.02 | (6.34) | (61.15) |
| 3. | Net profit/(Loss) for the period before tax (after depreciation, Exceptional and/or Extraordinary items) | 4.30 | 0.36 | 13.21 | 4.66 | (14.48) | (77.87) |
| 4. | Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 4.30 | 0.36 | 13.21 | 4,66 | (14.48) | 61.93 |
| 5. | Total comprehensive income for the period (Comprising profit/loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax) | 4.30 | 0.36 | 13.21 | 4.66 | (14.48) | 63.25 |
| 6. | Paid up Equity Share Capital (face value Rs. 10/- each) | 1,674.25 | 1,674.25 | 1,674.25 | 1,674.25 | 1,674.25 | 1,674.25 |
| 7. | Reserve excluding revaluation reserves | - 80 | - 40 | | | - 8 | (204.62) |
| 8. | Earnings per share (EPS): | | | | | | 1000 |
| | 1. Basic: | | | | | | |
| | 2. Diluted: | 0.03 | 0,002 | 0.08 | 0.03 | (0.09) | 0.38 |

Notes:

Tarun Vohra

(Amt in Lakhs)

Managing Director

DIN No.00030470

The above Standalone financial results of the Company for the Quarter and half year ended September 30, 2023 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Director in their respective meetings held on Wednesday, November 08, 2023 and the Statutory Auditors of the Company have carried out Limited Review of the aforesaid Results.

The above extract of the detailed format of financial results for the quarter and half year ended 30th September 2023 filled with the stock exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) regulations 2015. The full format of financial results are available on the website of the company i.e.www.bglgroup.in.

The figures for the previous period have been restated / regrouped / reclassified, wherever necessary, in order to make them comparable.

For Bhagawati Gas Limited

Rakesh Samrat Bhardwaj

(₹ in Lacs except figures of EPS)

Place: New Delhi Date: 09.11.2023

(Managing Director) DIN: 00029757

PRADYUMNA STEELS LIMITED

CIN: L27109DL1972PLC319974 Regd. Office: Flat No. 702, 7th Floor, Kanchenjunga, 18, Barakhamba Road, New Delhi - 110001

Phone: 011-23310001 (5 Lines), E-mail: hcslndl@yahoo.co.in Website: www.psteelltd.com

Extract of Un-audited Consolidated Financial Results for the Quarter/Half Year ended 30th September, 2023

> (Rs. in lakhs except per share data) CONSOLIDATED

| SI | 000000000000 | | Quarter ended | 7 | Half yea | Year Ended | | |
|-----|--|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--|
| No. | Particulars | Particulars | | | | year or second and the second | | |
| NO. | | Sep 30, 2023 | | | | | Mar 31, 2023 | |
| | | (Un-audited) | (Un-audited) | (Un-audited) | (Un-audited) | (Un-audited) | (Audited) | |
| 1. | Total income from operations | 7.12 | 7.02 | 7.10 | 14.14 | 14.12 | 28.30 | |
| 2. | Net Profit/(Loss) for the period/year (before tax and Exceptional items) | 3.26 | 2.52 | 1.23 | 5.78 | 4.56 | 8.33 | |
| 3. | Net Profit/(Loss) for the period/year before tax (after Exceptional items) | 3.26 | 2.52 | 1.23 | 5,78 | 4.56 | 8.33 | |
| 4. | Net Profit/(Loss) for the period/ year after tax and Exceptional items | 2.15 | 1.59 | 0.63 | 3.74 | 2.83 | 5.03 | |
| 5. | Total Comprehensive Income for the period/year [Comprising Profit / (Loss) for the period/ year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | (251.16) | 715.36 | (221.43) | 464,20 | (788,76) | (1,181.09) | |
| 6. | Equity Share Capital | 15.84 | 15.84 | 17.11 | 15.84 | 17.11 | 15.84 | |
| 7, | Other Equity | | 37 | | | | 2,359.49 | |
| 8. | Earnings per share of Rs 10 each (a) Basic (Rs) (b) Diluted (Rs) | 1.36 1.36 | 1.00 | 0.37 0.37 | 2.36 2.36 | 1.64 1.64 | 3.18 3.18 | |

Half year Ended Year Ended Quarter ended Sep 30, 2023 June 30, 2023 Sep 30, 2022 Sep 30, 2023 Sep 30, 2022 Mar 31, 2023 **Particulars** (Un-audited) (Un-audited) (Un-audited) (Un-audited) (Un-audited) (Audited) Total Income 7.12 28.30 Profit Before Tax 3.25 2.53 1.23 5.78 4.56 8.36 3. Total Comprehensive Income (251.17)715.37 (221.43)464.20 (788.76)(1.181.06)Notes:

September 30, 2023, filed with the Calcutta Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 2. The above Un-audited standalone & consolidated financial results were subject to limited review by the Statutory Auditors of the company, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting

The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Financial Results for the guarter/half year ended

held on 9th November, 2023. The Review Report of the Statutory Auditors is being filed with the Calcutta Stock Exchange Limited. For and on behalf of the Board Murari Lal Birmiwala Place: New Delhi Director

Date: 09.11.2023

DIN: 00642510

Quarter Half Year Half Year

DR. FRESH ASSETS LIMITED CIN: L74899DL1990PLC042302

Regd Office: B-1/E-24, Mohan Co-operative Industrial Area, New Delhi-110044 Website: www.drfreshassets.com, Mail ID: drfresh@drfreshassets.com

Extract of Standalone Un-audited Financial Results (Provisional) for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2023 (All figures are Rs in Lakhs except EPS)

| No. | Particulars | ended | ended | ended | ended | ended | ended |
|-----|--|-------------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------|
| | | 30.09.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2023 | 30.09.2022 | 31.03.2023 |
| | | (Reviewed) | (Reviewed) | (Reviewed) | (Reviewed) | (Reviewed) | (Audited) |
| 1. | Total income from operations | 22.97 | 28.09 | 28.99 | 51.06 | 240.72 | 294.46 |
| 2. | Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 27.58 | 81.35 | 81.14 | 108.93 | 181.47 | 131.80 |
| 3. | Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 27.58 | 81.35 | 81.14 | 108.93 | 181.47 | 131.80 |
| 4. | Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 20.08 | 61.66 | 57.44 | 81.75 | 135.68 | 100.21 |
| 5. | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) | 0.47.00 | 100.70 | 001.05 | 400.67 | 054.44 | 050.00 |
| 6. | and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital | 247.88 1077.91 | | | | 354.44 538.96 | 256.29 1077.91 |
| 7. | Other Equity | 1077.91 | 1077.91 | 536.96 | 1077.91 | 536.96 | 3476.31 |
| 8. | Earnings per share (Face value of Rs. 10/- Each) Basic & Diluted (Rs.): | 0.19 | 0.57 | 0.53 | 0.75 | 1.25 | 0.92 |

Extract of Consolidated Un-audited Financial Results (Provisional) for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2023 (All figures are Rs in Lakhs except EPS) Quarter Half Year Half Year Quarter Quarter ended 30.09.2023 30.06.2023 30.09.2022 30.09.2023 30.09.2022 31.03.202 (Reviewed) (Reviewed) (Reviewed) (Reviewed) (Audited Total income from operations 344.12 530.42 Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 18.18 60.02 75.94 113.17 108.39 Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 57.76 18.18 60.02 75.94 113.17 108.39 Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after 53.84 79.09 85.54 Exceptional and/or Extraordinary items) 3.08 43.57 56.92 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) 308.00 538.96 1077.91 Equity Share Capital 1077.91 1077.91 1077.91 538.96 3201.02 Earnings per share (Face value of Rs. 10/- Each) 0.73 Basic & Diluted (Rs.): 0.50 0.03 0.40 0.52

1. The above is an extract of the detailed Quarterly Financial Results which have been adopted by the Audit Committee in their meeting held on 09.11.2023, approved by the Board of Directors in their meeting held on 09.11.2023 and reviewed by the statutory auditors and filed with the Stock Exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financials Results are available on the Stock Exchange Website i.e. www.mcx-sx.com and on the company's website i.e.

2. These financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 and relevant amendment rules thereafter 3. During the year the company has entered into partnership with 90% share in a LLP and Invested in one new 100% owned subsidiary

4. Figures of the previous period and/or year have been regrouped or rearranged wherever considered necessary.

5. No of Investors Complaint received: Nil Disposed Off: Nil Pending: Nil

Place: New Delhi Date: 09.11.2023

Vijay Prakash Pathak Whole Time Director, DIN-07081958

By Order of the Board

New Delhi

For Dr. Fresh Assets Ltd

NEW LOOK BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMTIED (FORMERLY KNOWN AS ANSAL PHALAK INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED)

(CIN: U70100DL2010PTC208167) First Floor, The Great Eastern Centre, 70, Nehru Place, Behind IFCI Tower, New Delhi-110019

FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR ENDED ON 30TH SEPTEMBER, 2023 [Regulation 52(8), read with Regulation 52(4), of the SEBI (LODR) Regulations, 2015] Half Year Half Year Year Ended Ended Ended Particulars 30/09/2023 30/09/2022 31/03/2023 (Un Audited) (Un Audited) (Audited) 10,428.10 Total Income from Operations 8,455.96 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax. Exceptional and/or Extraordinary items#) (328.53)2,059.65 (203.80)Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) 2,059.65 (203.80)(328.53)Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) (704.97)(384.90)1,601.26 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income 1,601.26 (704.97)(384.90)Paid up Equity Share Capital 11.37 11.37 11.37 13,792.52 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 13,407.62 16,098.78 Securities Premium Account 18,198.07 18,198.07 18,198.07 Net worth (excluding DRR of Rs. 1502.45) 11,905.18 12,301,45 14,607.70 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt Outstanding Redeemable Preference Shares Nil 12 Debt Equity Ratio 0.27 0.39 0.26 13 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each). (for continuing and discontinued operations) -1. Basic: (338.52)1,408.33 (620.05)(620.05)2. Diluted: (338.52)1,408.33 14 Capital Redemption Reserve 15 Debenture Redemption Reserve 1,502.45 1,502.45 1,502.44 0.32 16 Debt Service Coverage Ratio (75.02)1.46 Interest Service Coverage Ratio (66.21)4.62 0.93

the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of SEBI Circular (CIR/IMD/DF1/69/2016) dated August 10, 2016. The full format of the financial results are available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and also on the Company's website www.newlookdevelopers.com (b) For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures

(a) The above is an extract of the detailed format of half yearly/ annual financial results filed with

have been made to the Stock Exchange, BSE Limited and can be accessed on the URL https://www.newlookdevelopers.com/investors/

 The Above results of the Company have been Audited by the Statutory Auditors and they have issued an unqualified audit opinion on the same.

d) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted (if any) in the Statement of Profit and Loss in accordance with IndAS Rules, whichever is applicable. e) " - The pertinent items need to be disclosed if the said disclosure is required as per Regulation

52(4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

For and on behalf of the Board of Directors New Look Builders & Developers Private Limited

Piyush Kumar Gupta (Director) Date: 09.11.2023 DIN: 07772976 Place: New Delhi



CLASSIFIED AD DEPOT (CAD) Book classified ads at your nearest Express

Group's authorised Classified Ad Depots

EAST

PATPARGANJ: CHAVI ADVERTISERS. Ph.: 9899701024.

22090987, 22235837, **PREET VIHAR**: AD BRIDGE COMMU-NICATION, Ph.: 9810029747, 42421234, 22017210, **SHAKARPUR**: PARICHAY ADVERTISING & MARKETING. Ph.: 9350309890, 22519890, 22549890

WEST JANAKPURI: TRIMURTI ADVERTISERS, Ph.: 9810234206.

25530307, KAROL BAGH (REGHARPURA): K R ADVERTIS-ERS, Ph.: 9810316618, 9310316618, 41547697, KARAM-**PURA**: GMJ ADVERTISING & MARKETING PVT. LTD., Ph.: 9310333777, 9211333777, 9810883377, **NEW MOTI** NAGAR: MITTAL ADVERTISING, Ph.: 25178183. 9810538183. 9555945923. **MOTI NAGAR**: UMA ADVER-TISERS, Ph.: 9312272149, 8800276797, **RAMESH NAGAR**: POSITIVE ADS. Ph.: 9891195327, 9310006777, 65418908, TILAK NAGAR: SHIVA ADVERTISERS. Ph.: 9891461543. 25980670, 20518836, **VIKAS PURI** : AAKAR ADVT, MEDIA Ph.: 9810401352, 9015907873, 9268796133

CENTRAL

CHANDNI CHOWK: RAMNIWAS ADVERTISING & MARKET-ING. Ph.: 9810145272, 23912577, 23928577, CONNAUGHT PLACE: HARI OM ADVERTISING COMPANY Ph.: 9811555181, 43751196

NORTH

TIS HAZARI COURT: SAI ADVERTISING. Ph.: 9811117748 KINGWAY CAMP : SHAGUN ADVERTISING. Ph.: 9818505505. 27458589. PATEL CHEST (OPP. MORRIS NAGAR POLICE STATION): MAHAN ADVERTISING & MAR-KETING, Ph.: 9350304609, 7042590693, PITAMPURA (PRASHANT VIHAR) : PAAVAN ADVERTISER Ph.: 9311564460. 9311288839. 47057929

SOUTH CHATTARPUR: A & M MEDIA ADVERTISING. Ph.:

9811602901, 65181100, 26301008, **KALKAJI** : ADWIN ADVERTISING, Ph.: 9811111825, 41605556, 26462690, MALVIYA NAGAR : POOJA ADVERTISING & MARKETING SERVICE. Ph.: 9891081700, 24331091, 46568866, **YUSUF SARAI:** TANEJA ADVERTISEMENT & MARKETING Ph.: 9810843218, 26561814, 26510090

NCR FARIDABAD (NEELAM FLYOVER) : AID TIME (INDIA)

ADVERTISING. Ph.: 9811195834. 0129-2412798. 2434654. FARIDABAD (NIT, KALYAN SINGH CHOWK) : PULSE ADVERTISING. Ph.: 9818078183. 9811502088. 0129-4166498. FARIDABAD: SURAJ ADVERTISING & MARKET-ING. Ph.: 9810680954. 9953526681. **GURGAON**: SAMBOD-HI MEDIA PVT. LTD.. Ph.: 0124-4065447. 9711277174. 9910633399, **GURGAON**: AD MEDIA ADVERTISING & PR. Ph.: 9873804580, **NOIDA (SEC. 29)**: RDX ADVERTISING, Ph.: 9899268321. 0120-4315917. NOIDA (SEC. 65): SRI SAI MEDIA. Ph.: 0120-4216117. **NOIDA (SEC. 58)** : JAI LAKSHMI ADVERTISERS, Ph.: 9873807457, 9911911719 GHAZIABAD (HAPUR ROAD TIRAHA, NR GURUDWARA): TIRUPATI BALAJI ADVERTISING & MARKETING.

EDUCATION (IAS & PMT ACADEMIES)

Ph.: 9818373200, 8130640000, 0120-4561000

FRIENDS PUBLICITY SERVICE 23287653, 23276901, 9212008155

For CAD enquiries please contact:

ROHIT JOSHI 9818505947, **ABHINAV GUPTA** 9910035901 For booking classified ads, please contact 011-23702148, 0120-6651215, E-mail: delhi.classifieds@expressindia.com

financialexp.epap.in

tion platform provided at the website: www.iiflonehome.com.





उत्तर प्रदेश पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन लि०

अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना (2023-24) विद्यत जानपद पारेषण मण्डल आगरा

1. अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या-13 / वि0जा0पा0मं0 / आगरा / 2023-24:-- 132 के0वी0 उपकेन्द्र अलीगढ तृतीय पर नियंत्रण कक्ष भवन के विस्तारीकरण कर क्षमतावृद्धि से सम्बन्धित जानपदीय निर्माण कार्य, समय अवधि 02 माह, धरोहर धनराशि रू० 22,000.00, निविदा मूल्य रू० 2000+360 = 2360.00, अन्तिम तिथि 23.11.2023 I PR No-1300037006. निविदा का विस्तृत विवरण, विस्तारीकरण शुद्धिकरण इत्यादि की सूचना ई-टेण्डर की बेवसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है, जिसको बेवसाइट के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। बैंक खाता अधिशासी अभियन्ता (जानपद) अलीगढ़ A/C No.-10975837739, IFSC Code-SBIN0000604 Payable at S.B.I. Main Branch Aligarh Through NEFT/RTGS. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, 220 के०वी० उपकेन्द्र सिकन्दरा आगरा। "राष्ट्र हित में बिजली बचायें" पत्रांक:522-वि0जा0पा0मं0आ0 / दिनांक:07.11.2023

रिच युनिवर्स नेटवर्क लिमिटेड

CIN: L51100UP1990PLC012089 पंजीकृत कार्यालयः दूसरी मंजिल, 7/125, सी-2, स्वरूप नगर, कानपुर-208002, उ.प्र.

फोनः 0512-2540293 ई-मेलः investors@richuninet.com, वेबः www.richuninet.com 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अलेग्नामीथित तिनीय मिमाप

| | अलखापराक्षत । | त्रताय पारण | स स | भी राशियां लाखों में |
|-----------|---|--|--|---|
| क. सं. | विवरण | 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही∕वर्ष | 30 सितंबर, 2023 तक वर्ष दर आंकड़े | सितंबर, 2022 पूर्व वर्ष में समाप्त अनुरूप तिमाही |
| 1. | प्रचालनों से कुल आय | 0.00 | 0.00 | (1.77) |
| 2. | अवधि के लिए शुद्ध लाभ∕(हानि) (कर, स्वीकार्य और असाधारण मदों से पूर्व) | (2.20) | (7.60) | (5.64) |
| 3. | कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्धलाभ⁄ (हानि) (स्वीकार्य और असाधारण के बाद) | (2.20) | (7.60) | (5.64) |
| 4. | कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ⁄ (हानि) (स्वीकार्य और असाधारण मदों के बाद) | (2.20) | (7.60) | (5.64) |
| 5. | अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) के लिए लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को शामिल करके] | (2.20) | (7.60) | (5.64) |
| 6. | इक्विटी शेयर पूंजी | 725.28 | 725.28 | 725.28 |
| 7. | आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त) | | | - |
| 8. | 10/- रु. प्रति के आय प्रति शेयर (जारी एवं बंद प्रचालनों के लिए) | 27 | | |
| 1. | मूल: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | तनुकृतः | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ए) उपरोक्त विवरण सेबी (सचीकरण तथा अन्य प्रकटीकरण अपेक्षांए) विनियमनों, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण विवरण शेयर बाजार की वेबसाईटों और सूचीबद्ध प्रविष्टि पर उपलब्ध हैं। कृते रिच युनिवर्स नेटवर्क लिमिटेड

स्थानः कानपुर शाश्वत अग्रवाल दिनांक: 09.11.2023 DIN: (00122799)

कार्यालय उप महाप्रबन्धक (वि०/यॉ०), विद्युत खण्ड-द्वितीय उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण टीडीएस सिटी, गाजियाबाद । E-Mail- ed2@upsida.co.ir ई-निविदा सूचना एतदद्वारा सचित किया जाता है कि प्राधिकरण के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत संबंधी

विकास कार्यों हेत् सरकारी विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों / प्राधिकरणों / परिषदों / नगर निकायों में पंजीकृत फर्मो / ठेकेदारों से ई--निविदायें आमंत्रित की जाती है कार्य का नाम भार्व की समय कर जिल्हा में

Providing street light network along with AMC for one

| 1 | year at IA. Loha Mandi Ghaziabad. | |
|---|---|-------|
| 2 | Providing and Installation of LED High Mast Lighting system at IA. Bulandshahar Road Ghaziabad. | 49.27 |
| 3 | Providing and Installation of LED High Mast Lighting system at IA. Loha Mandi Ghaziabad. | 39.65 |
| 4 | Providing and Installation of LED High Mast Lighting system at IA. SSGT Road Ghaziabad. | 49.14 |
| 5 | Providing and Installation of LED High Mast Lighting system at IA. Site-4 Sahibabad Ghaziabad. | 84.05 |

निविदा दिनांक 11.11.2023 को 11:00 बजे से दिनांक 30.11.2023 को 18:00 बजे तक अपलोड की जा सकती है, जिसे दिनांक 02.12.2023 को 11:00 बजे या इसके पश्चात खोला जायेगा। निविदादाताओं द्वारा शपथ पत्रों की मूल प्रतियों निविदा खोलने के बाद 03 कार्य दिवस में पंजीकृत डाक / व्याक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा की जा सकती है।

नोटः १. निविदादाता अपनी निविदाओं में समस्त कर सहित दरें अंकित करें, अलग से मात्र जी०एस०टी० देय होगा। 2. विद्युत कार्यों हेत् निविदादाताओं को निविदा अपलोड करते समय "विद्युत सुरक्षा विभाग" ७०४० शासन, लखनऊ में 'क' श्रेणी, अनुमोदित लाइसेन्स एवं Eligibility Criteria के अनुसार समस्त प्रपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा को Consider नहीं किया जायेगा। निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी website: www.onlineupsida.com पर स्थापित लिंक युपीएलसी की website: https://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है।

उप महाप्रबन्धक, उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, गाजियाबाद

प्रपत्र स. - ७३ [बिनियम-१५ (१) (क) /१६ (३) दस्त ऋण बसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) प्रथम तल एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़ (तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्पेस आबंटित) बाद सं. : UA/158/2019

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप—नियम (2क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19(4) के तहत सम्मन Exh. No.: **20341** स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

बनाम स्वप्निल एस कोटिया

सेवा में.

1) स्वप्निल एस कोटिया D/W/S/O-....

स्विप्नल एस कोटिया निवासी डी-08 ग्राउंड फ्लोर प्लॉट नं. जीएच-14, शिवालय सोसाइटी सेक्टर 56 गुडगांव — 122002 हरियाणा, पैन नं. AJIPK5150A गुडगांव, हरियाणा अन्य पताः स्विप्नल एस कोटिया उप महाप्रबंधक भारती एयरटेल लिमिटेड एयरटेल सेंटर प्लॉट नं. 6, उद्योग विहार फेज । गुड़गांव हरियाणा गुड़गांव, हरियाणा अन्य पताः स्वप्निल एस कोटिया ४२६ उषा नगर एक्सटेंशन इंदौर मध्य प्रदेश –४५२००१

2) भारती द्वे 426, उषा नगर एक्सटेंशन इंदौर गृडगांव, हरियाणा अन्य पताः भारती द्वे पत्नी स्वप्निल एस कोटिया 426, उषा नगर एक्सटेंशन इंदौर मध्य प्रदेश – 452001 इंदौर मध्य प्रदेश -452001 अन्य प्ताः भारती दुबे पत्नी स्वप्निल एस कोटिया, बी-16, तीसरी मंजिल रोसारियो बिल्डिंग आई.सी. कॉलोनी बोरीवली वेस्ट, मुंबई-400103 मुंबई,

3) मैसर्स ढींगरा जार्डिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वीआईपीएस सेंटर प्रथम तल 2 स्थानीय शॉपिंग सेंटर मस्जिद मोठ ग्रेटर कैलाश द्वितीय नई दिल्ली नई दिल्ली, दिल्ली अन्य पताः मेसर्स ढींगरा जार्डिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एचएस-37, पहली मंजिल, कैलाश कॉलोनी, मेन मार्केट नई दिल्ली – 110048 नई दिल्ली, दिल्ली – 110048

जबिक, ओए / 158 / 2019 माननीय पीठ अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष 11–09–2023 को पेश

जबिक, यह माननीय न्यायाधिकरण $oldsymbol{v}$. **4884129** /- की ऋण वसूली के लिए आपके विरूद्ध दाखिल किए गए (ओए) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन / नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है (दस्तावेजों इत्यादि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है)। अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत आप प्रतिवादी(यों) को निम्न निर्देश भी दिया जाता

i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए ; ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तत करें :

iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन का निस्तारण लम्बित रहने . तक, प्रत्याभुत आस्तियों अथवा मुल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है ;

iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभृति हित सुजित किया गया है तथा / अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे ;

v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभृति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे। आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुँहैया कराने तथा दिनांक 16-11-2023 को पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 13-09-2023 को दिया गया। सम्मन जारी करने हेत् प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

JAGAT TRADING ENTERPRISES LIMITED

CIN: L74999DL1982PLC014411 Registered Office: 208, Magnum House-II, Karampura Community Centre,

New Delhi-110015, Ph: 011-45090162 **E-mail Id:** jagattradingenterpriseslimited@gmail.com, **Website:** www.jtel.co.in

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2023

| 20 | | | (Rs. in T | housands, e | except EPS |
|-----|---|--------------|------------------|--------------|------------|
| SI. | 6 | Quarte | r Ended | Half Yea | ar Ended |
| No. | PARTICULARS | 30.09.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2023 | 30.09.202 |
| | | (Reviewed) | (Reviewed) | (Reviewed) | (Reviewed |
| 1 | Total Income from operations | 20,531.38 | 1,134.39 | 23,917.19 | 2,177.5 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items) | 21,150.59 | (4,100.20) | 17,540.23 | (8,106.78 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before Tax (After Exceptional and / or Extraordinary items) | 21,150.59 | (4,100.20) | 17,540.23 | (8,106.78 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after Tax (After Exceptional and / or Extraordinary items) | 21,329.35 | (3,907.85) | 17,540.23 | (7,861.90 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (After Tax) | 21,343.36 | (3,919.35) | 17,540.23 | (7,884.90 |
| 6 | Equity Share Capital | 50,816.40 | 50,816.40 | 50,816.40 | 50,816.40 |
| 7 | Earning Per Share (FV of Rs. 10/- Each) for continuing and discontinued operations) | | | | |
| | a) Basicb) Diluted | 4.20 4.20 | (0.77) (0.77) | 3.45 3.45 | ١ , |

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Six Months Un-Audited Financial Results - as per IND AS compliant filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly and Six Months Un-Audited Financial Results as on 30.09.2023 are available on Company's website, www.jtel.co.in and Stock Exchange website,

For, JAGAT TRADING ENTERPRISES LIMITED

Place: New Delhi Date: 10 November, 2023 (Praveen Kumar Goel) Chairman DIN No: 00021153

Sd/-

दिनांक 14.12.2023

प्रातः 11.00 बजे से

साय 05.00 बजे तक

(되) 등 10.000/-

सावजानक संचना देनांक 13.10.2023 को समाचार पत्र "जनसत्त हिन्दी. लखनक संस्करण) एवं फाइनेंशियल एक्सप्रेर (अंग्रेजी, लखनऊ संस्करण) में श्री वरुण देव गुप्त पुत्र श्री महेश प्रसाद गृप्ता की संपत्ति खसरा संख्या 1725 माप क्षेत्र 632.434 वर्ग मीटर स्थित ग्राम हैवतमळ मवैया, परगना बिजनोर वार्ड इब्राहिमपुर तहसील सरोजिनी नगर, जिला लखनक, उत्तर प्रदेश की चेन-डीड के खो जाने / गुम होने के संबंध मे सार्वजनिक सुचना प्रकाशित की गई थी, सार्वजनिक सुचना के संदर्भ में यह सुचित किया जाता है कि लिपिकीय त्रृटि के कारण, उपर्यंक्त प्रकाशित सचना में चेन डीड के बारे में कुछ विवरण ठीक से विस्तृत नहीं थे, इसलिए उसे वापस लिया जाता है। अब, बडे पैमाने पर जनता को सुचित किया जाता है कि श्री वरुण देव गुप्ता पुत्र श्री महेश प्रसाद गुप्ता खसरा संख्या 1725 माप क्षेत्र 632.434 वर्ग मीटर रिधत ग्राम हैवतमऊ मवैया, परगना बिजनोर वार्ड इब्राहिमपर तहसील सरोजिनी नगर, जिला लखनक, उत्तर प्रदेश की संपत्ति के मालिक हैं। उक्त संपत्ति की चेन डीड दिनांक 30.06.1989 पस्तक संख्या I. खंड संठ -- 684. पुष्ट 137 / 139 क्रमांक 1593 दिनांक 10.05.1990 को ब्रजलाल द्वारा श्रीमती मुन्नी देवी के पक्ष में निष्पादित किया गया था कहीं खों गई है और काफी प्रयास के बाद भी नहीं मिली है। श्री वरुण देव गुप्ता उपरोक्त संपत्ति को पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में बंधक रखना चाहते हैं। इसलिए, यदि किसी व्यक्ति का इन संपत्तियों में कोई वैध हित / स्वामित्व है या अन्यथा कोई आपत्ति है तो वह इस सूचना के सात दिनों के भीतर बैंक को अभ्यावेदन दे सकता है।

पंजाब नैशनल बैंक, मिड कॉरपोरेट सेंटर, 10 अशोक मार्ग, लखनक 226001 中, 9756700545

इंडियन बेंक Indian Bank 🕰 इलाहाबाद ALLAHABAD मण्डलीय कार्यालय लखनकः न्य बिल्डिंग, द्वितीय तल, हजरतगंज, लखनक-226001 फोनः 0522-2286272, 2287283, फैक्सः 0522-2288033, ई-मेलः zolucknow@indianbank.co.in

ई- नीलामी बिक्री सुचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पूनर्गठन तथा प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम (सर्फेसी) 2002 के पठित नियम 8(6)

के अन्तर्गत बैंक में बंधक रखी अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी की सुचना

जैसाकि, इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक) के बकायों के तथा उसमें वर्णितनुसार ब्याज की वसूली हेतु ''जहाँ है जो है, जो कुछ भी है वहाँ पर'' के आधार पर उसे बेचने के अधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खाता में वित्तीय आरितयों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के धारा 13(2) के अधीन जारी की गई सचना के अनुपालन में बैंक के प्राधिकत अधिकारी ने निम्नलिखित सम्पत्ति / यों का रचनात्मक कब्जा ले लिया है और जैसा कि बकार्यों का पूर्न भगतान न करने के फलस्वरूप. अधिनियम की घारा 13(4) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी कथित सम्पत्ति / यों की ई-नीलामी सेवाप्रदाता के माध्यम से बिक्री करके बैंक के बकायों की

| वस् | ्ली का प्रस्ताव रखता है। वर्तमान में सम्पत्तियों का सांक | तिक कब्जा उपलब्ध हैं । | | | |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|--|
| क्र. सं. | ऋणी/प्रोपराइटर/पाटनर्स /निदेशक/जमानतकर्ता का नाम एवं पता | अचल सम्पत्ति बंधक का विवरण | मांग सूचना के अनुसार | (स) धरोहर राशि | ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि व समय ई—निलामी की तिथि व समय |
| 2 | गाखाः विकास नगर | | | | |
| 1. | (ऋणी एवं बंधककर्ता), प्लॉट संख्या–६, खसरा | सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर मकान सं. / प्लॉट सं. ६, खसरा सं. 134 का भाग के सभी भाग व | 04.08.2023 | (sq) = 2.01.700/- | दिनांक 13.12.2023 प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक |

- खण्ड, क्षेत्रफल 55.762 वर्ग मा०, आदिलनगर वाड-(4) 612/653/25 दिनांक 18.03.2023 IFSC: IDIB000H561 शंकरपुरवा, लखनऊ, **चौहददीः उत्तर**— श्रीमती प्रभा तक + व्याज 2. श्री शैलेन्द्र कुमार रावत पुत्र श्री काशी प्रसाद हजरतगंज शाखा साह का मकान, दक्षिण- कमल कुमार का प्लॉट सं. 7, + लागत, अन्य शुल्क

(जमानतकर्ता), बी-124, शिवानी विहार कल्याणपुर,

विकास नगर लखनऊ 226022

इच्छुक बोलीदाता शीर्षक दस्तावेज, संपत्ति और उसके निरीक्षण के बारे में सत्यापन के लिए इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक), उपरोक्त शाखा से कार्यालय समय में दिनांक 12.12.2023 से पहले संपर्क कर सकते हैं एवं नीलामी से संबंधित जानकारी के लिए इच्छक बोलीदाता उपरोक्त शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

पर्व- सडक 20 फीट चौडी. पश्चिम- अन्य का मकान

अधिक जानकारी और नियम एवं शर्ते डाउनलोड करने के लिए कृपया देखें— (1) http://www.ibopi.in (2) https://www.mstcecommerce.com

सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत उधारकर्ताओं / जमानतकर्ताओं को बिक्री सूचना के बारे में अधिसूचित किया जाता है। प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक) स्थानः लखनक. दिनांक : 11.11.2023

है की अधोहरताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) संपठित उक्त नियम के नियम 8 व 9 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में

दिनांकः 11.11.2023

इंडियन बेंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

🗘 इलाहाबाद

निम्नलिखित सम्पत्तियों का आधिपत्य ग्रहण कर लिया गया है। ऋण-ग्रहिता / जमानतकर्ता को विशिष्ट रूप से और सर्व-साधारण को सामान्य रूप से एतदवारा संपत्ति के साथ व्यवहार (क्रय–विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्ति का किसी भी प्रकार से क्रय–विकय इंडियन बैंक के अधीन रहेगा।

उधारकर्ता / जमानतकर्ता का ध्यान प्रतिभृति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कब्जा नोटिस (अवल सम्पत्ति हेतू)

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन)अधिनियम 2002 के नियम-8(1) के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **इंडियन बैंक** का प्राधिकत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभति हित प्रवर्तन

अधिनियम 2002, (घारा 54, 2002) की घारा 13 (12) प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (प्रवर्तन) की संपर्धित नियम 3, 8 व 9 के तहत प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋणी को मांग सचना पत्र से यहाँ विस्तृत रूप से नीचे दी गयी राशि 60 दिनों के भीतर लौटाने के लिए निर्गमित

ऋण-ग्रहिता / जमानतकर्ता के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋण-ग्रहिता / जमानतकर्ता और सर्वसाधारण को एतद्दवारा सुचना दी जाती

यह सूचना इस अधिग्रहण के आयोजन के सम्बन्ध में कर्जदारों, जमानतकर्ताओं और बंधककर्ताओं को बकाया जमा करने के लिए कहा जा रहा है। विवरण निम्नुसार हैं:-

| ऋणी/प्रोपराइटर/जमानतकर्ता/ बंधककर्ता का नाम एवं पता | अचल सम्पत्ति का विवरण | मांग सूचना की तिथि कब्जा की तिथि बकाया धनराशि |
|---|--|---|
| ॥खाः चिनहट | ng (2008) New Yorker (Marketin) (2008) 10 | |
| पोस्ट-जुगौर, लखनऊ | सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर मकान रिथत ग्राम-जुग्गौर, परगना एवं तहसील-लखनऊ, मालिकः | 06.11.2023 |
| बंधककर्ता) पत्नी अरविंद रावत, ग्राम एवं पोस्ट-जुम्मौर लखनऊ 3. श्री अरविन्द सिंह रावत (जमानतकर्ता) पुत्र | श्रीमती अनीता देवी पत्नी अरविंद रावत, उप-जिला लखनऊ एवं जिला लखनऊ के अन्तर्गत पंजीकरण, क्षेत्रफल-185.873 वर्ग मीटर (2000 वर्ग फीट), चौहद्दीः पूर्वः तालाब एवं अजाज मियां का मकान, पश्चिमः 10 फीट घौड़ी सड़क, उत्तरः तालाब (बरगल्ला), दक्षिणः छोटकऊ कासगर का | रु. 5,59,784.64 +ब्याज∕शुल्क एवं उसपर ब्याज |

मकान

स्थानः लखनक

इंटेग्रा कैपिटल लिमिटेड (पूर्व में इन्ट्रेग्रा कैपिटल मैनेजमेन्ट लिमिटेड विदित) सीआईएन नंबर L74899DL1990PLC040042 I जीएसटी टिन-07AAACI0828F2ZX पंजी. कार्यालय: 32, रीगल बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाहो तथा छमाहो के लिए <u>अनकक्षित वित्तीय परिणामी का विवर</u>ण

| क्र. सं. | विवरण | समाप्त तिमाही 30.9.2023 (अनंकेक्षित) | समाप्त तिमाही 30.9.2023 (अनंकेक्षित) | समाप्त वर्ष 31.3.2023 (अंकेक्षित) |
|-------------|---|--|--|---|
| 1 | प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध) | (अनकाक्षत) | 25,93 | 11018 |
| 2 | कर से पश्चात सामान्य क्रियाकलापीं से शुद्ध लाभ | 19.07 | 222.10 | (30.59) |
| 3 | कर से पश्चात अवधि के लिये शुद्ध लाभ (अपवादित मदों के बाद) | 1833 | 222.10 | (30.59) |
| 4 | प्रदत इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु.10/- प्रति शेयर) | 470.28 | 470.28 | 470.28 |
| 5 | पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर आरक्षित | 9.0 | - | (1102:22) |
| 6 | आय प्रति शेयर (ईपीएस) (रु.10/– प्रतिका) (वार्षिकीकृत नहीं) का मूल एवं तरल ईवीएस (असाधारण मदों से पूर्व (रु. में) ख) मूल एवं तरल ईपीएस (असाधारण यहाँ के बाद (रू में) | 0.39 0.39 | 047 047 | (P.65 (P.65 |

के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एम्सचेंज की वेबसाईट www.bse.india.com तथा कम्पनी की वेबसाइट प

इन्ट्रेगा कैपिटल लिमिटेड के लिये तथा उसकी ओर से (पूर्व में इन्टेग्रा कैपिटल मैनजमेन्ट लिमिटेड)

प्राधिकत अधिकारी, इंडियन बैंक

Indian Bank

(A Govt. of India Undertaking)

ALLAHABAD

स्थान : नई दिल्ली तरुण बोहरा प्रबंध निदेशक तिथि : 09.11.2023 DIN No. 00030470

Oriental TRIMEX LIMITED

CIN No L74899DL1996PLC078339 AN ISO 9001-2000 CERTIFIED COMPANY REGD OFFICE: 26/25, OLD RAJENDER NAGAR, NEW DELHI -60 Company's website: www.orientaltrimex.com, Mail ID: info@orientaltrimex.com

EXTRACTS OF UNAUDITED STANDALONE RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30.09.2023 (Rs. in lakh except EPS

| Sr. No. | PARTICULARS | Qua | rter Ended | Year Ended | | |
|------------|--|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 30-09-23 | 30-06-23 | 30-09-22 | 30.09.2023 | 31.03.2023 |
| | | Rupee in lacs | Rupee in lacs | Rupee in lacs | Rupee in lacs | Rupee in lacs |
| | | Audited | Unudited | Audited | Audited | Audited |
| 1 | Income from Operations | 10.09 | 32.12 | 333.90 | 42.21 | 871.46 |
| 2 | Total income from Operations | 44.66 | 176.76 | 337.68 | 221.42 | 896.76 |
| 3 | Profit before Interest and Depreciation (EBITDA) | 57.96 | 50.04 | -13.83 | 108.00 | -207.01 |
| 4 | Net Profit before tax from ordinary activities and exceptional items | 15.52 | 7.44 | -20.07 | 22.96 | -524.44 |
| 5 | Net Profit after tax from ordinary activities and exceptional items | 15.52 | 7.44 | -20.07 | 22.96 | -431.91 |
| 6 | Total comprehensive income for the period (comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive income (after Tax)) | 15.52 | 7,44 | -20.07 | 22.96 | -429.70 |
| 7 | Equity Share Capital | 2,940.29 | 2,940.29 | 2,851.52 | 2,940.29 | 2,851.52 |
| 8 | Reserve (excluding revaluation reserves) as shown in audited Balance Sheet | 1.5 | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | | 1,206.30 | 1,497.73 |
| 9 | Earning per share after extraordinary items i) Basic | 0.05 | 0.03 | -0.27 | 0.08 | -1.78 |
| | ii) Diluted | 0.05 | 0.02 | -0.27 | 0.07 | -1.65 |

Note:-

The above results were reviewed by audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on 10° November, 2023.

2 The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30.09.23. filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 31.03.2023 are available on the company's website http://www.orientaltrimex.com under "Investor" and website of National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at http://www.nseindia.com and http://www.bseindia.com respectively.

Earning Per Share (both basic and diluted) for the guarter ended and half year ended 30th September, 2023 has been calculated on income after exceptional items.

For Oriental Trimex Limited

10th November, 2023

Rajesh Punia **Managing Director**

Place: New Delhi

Company's website: www.orientaltrimex.com, mail ID: info@orientaltrimex.com

मेगनम वेंचर्स लिमिटेड

सीआईएन : L21093DL1980PLC010492

पंजीकत कार्यालयः एचएनओ–एमएन ० १, हब औरओक , ई – 14 , लोअर ग्राउंड फ्लोर , डिफेंस कॉलोनी , नई दिल्ली–110 0 24 . दूरभाष : +91–11–4242 0 0 15 ई—मेल :info@magnumventures.in | वेबसाइट :www.magnumventures.in

30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का उद्धरण

| | विवरण | तिमाही समाप्त | | | छमाही समाप्त | | वर्ष समाप्त | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--|
| क्रम सं. | | 30.09.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2023 | 30.09.2022 | 31.03.2023 (लेखापरीक्षित) | |
| ¥1. | | (अलेखापरीक्षित) | (अलेखापरीक्षित) | (अलेखापरीक्षित) | (अलेखापरीक्षित) | (अलेखापरीक्षित) | | |
| 1. | प्रचालन से कुल आय | 12,145.05 | 11,363.50 | 12,970.81 | 23,508.55 | 24,692.27 | 46,549.89 | |
| 2. | शुद्ध लाम / (हानि) अवधि के लिए (कर से पहले. असाधारण और / या असाधारण आइटम) | 275.74 | 376,51 | 379.66 | 652.25 | 571.74 | 2,667.25 | |
| 3. | कर से पूर्व की अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि) (असाधारण और / या असाधारण मदों के बाद)) | 275.74 | 376.51 | 380.57 | 652.25 | 4,839.14 | 6,934.65 | |
| 4. | कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और / या असाधारण मदों के बाद) | 526.71 | 345.25 | 380.57 | 871.96 | 4,839.14 | 7,086.10 | |
| 5. | अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,686.82 | |
| 6. | अवधि के लिए कुल व्यापक आय[जिसमें लाभ / (हानि) शामिल है , उस अवधि के लिए | 500.74 | 245.05 | 200 57 | 074.00 | 4.000.44 | 64 770 60 | |
| | (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय] | 526.71 | 345.25 | 380.57 | 871.96 | 4,839.14 | 61,772.93 | |
| 7. 8. | इक्विटी शेयर पूँजी प्रति शेयर आय (प्रत्येक 10 रुपये की) (जारी और बंद संचालन के लिए) | 4,782.69 | 4,782.69 | 3,760.19 | 4,782.69 | 3,760.19 | 4,210.1 | |
| | मूल: | 0.11 | 0.80 | 1.01 | 0.19 | 12.87 | 18.78 | |
| | तरलः | 0.11 | 0.80 | 1.01 | 0.19 | 12.87 | 18.78 | |

1. यह विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (आईएनडी एएस) और अन्य मान्यता प्राप्त

लेखा प्रथाओं और नीतियों के अनुसार तैयार किया गया है। 2. उपरोक्त सेवी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सबेंजों के साथ दायर त्रैमासिक और अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश हैं। तिमाही और छमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप बीएसई और एनएसई की वेबसाइट पर

क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और कंपनी की वेबसाइट. www.magnumventures.in पर उपलब्ध है । 3. कंपनी ने एक स्वतंत्र पंजीकृत मृल्यांकनकर्ता की मृल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आईएनडी एएस 18 के अनुसार, पुनर्मृल्यांकन मॉडल को अपनाकर 31 मार्च, 2023 तक अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन किया है। इसका प्रभाव पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से अनुरक्षित आय में

स्थानांतरित कर दिया गया है। अतिरिक्त मूल्यहास को आईएनडी एएस 16 के अनुसार पूनर्मूल्यांकन रिजर्व से बरकरार आय में स्थानांतरित कर दिया गया है। 4. कंपनी ने 20 सितंबर, 2023 की 43 वीं एजीएम में अपनी अधिकृत शेयर पूंजी को 85.500 करोड़ से बढ़ाकर 97.825 करोड़ रुपये कर दिया है ।

तिमाही की शुरुआत में शुन्य निवेशकों की शिकायत लंबित थी, तिमाही के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, 30 सितंबर, 2023 तक शुन्य शिकायत लंबित थी।

6. उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा समिति हारा समीक्षा की गई और उसके बाद निदेशक मंडल हारा 10 नवंबर, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित और रिकॉर्ड पर लिया गया और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा भी समीक्षा की गई है। बोर्ड के आदेश से

पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, फिर से व्यवस्थित किया गया है।

मैग्नम वेंचर्स लिमिटेड के लिए तिमाही के लिए ईपीएस वार्षिक नहीं हैं। हस्ता/-अभय जैन तिथि: 10.11.2023 स्थान: गाजियाबाद प्रबंध संचालक

एवं उस पर खर्वे